

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

CA-17(44)/2022-23

11th August, 2022

The General Manager (MO) Bombay Stock Exchange	The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Ltd.
Through BSE Listing Centre	Through NEAPS

Sub: Extract of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022

Ref: Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: (security ID: SAIL)

Dear Sir,

Please find attached copy of the extract of newspaper publication of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial results for the Quarter ended 30th June, 2022, published in Business Standard (English and Hindi) on 11th August, 2022. This is for your information and record.

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली : 110 003, दूरभाष : 011-2436 7481-86, फैक्स : 011-2436 7015, वेबसाईट : www.sail.co.in

Thanking you,

Yours faithfully, For Steel Authority of India Limited

(M B Balakrishnan) CGM (Finance) & Company Secretary

Encl. As above.

Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110 003, Phone: 011-2436 7481-86, Fax: 011-2436 7015, Website: www.sail.co.in Corporate Identity No. L27109DL 1973 GOI006454 There's a little bit of SAIL in everybody's life



PAN No. AAACS7062F

Nokha Pipli Chowk Branch (11300), Nokha, Distt-Bikane (Raj.) 334803 E-Mail: Sbi.11300@sbi.co.in [Rule – 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **Demand Notice dated 21/04/2022** calling upon the **Borrower M/s Shyam Confectionary through proprietor Mr. Prem Prakash** Joshi s/o Mr. Mohan Lal Joshi to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,20,673/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty Thousand Six Hundred Seventy Three) as on 08/04/2022 (inclusive interest up to 07/04/2022) plus interest & other charges etc, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to th Borrower/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this **05th day of August of the year**

The Borrower/Mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs. 13,20,673/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty Thousand Six Hundred Seventy Three) as on 08/04/2022 (included interest up to 07/04/2022) plus further interest costs, etc. thereon.
The Borrower/Mortgagor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of

the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Shop No. 39, NH-89, North Side Navli Gate, Near Pipli Chowk, Bikaner Road, Nokha, Distt- Bikaner (Raj.) (Measuring Size 85 Sqit.) as per available bank record property owned by Mr. Prem Prakash Joshi s/o Mr Mohan Lal Joshi. Bounded:- On the North by: - Shop No. 38, On the South by: - Govt. Land On the East by: - Railway Land, On the West by: - Bikaner Road (NH-89)

(Authorized Officer) State Bank of Indi Date: 05.08.2022. Place: Nokha

Barmer Branch

APPENDIX -IV (See RULE - 8(1)) POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, the authorised officer of the Central Bank of India, Barmer Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and ir exercise of powers conferred under Section 13(2) and 13 (12) read with Rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated 04/08/2020 calling upon the Interest (Enforcement) Hules 2002, ISSUEG a demand notice dated U4/08/2020 calling upon the orrower 1. My, Sai Bhawani Plywood and Hardware Prop. Mr. Narpat Lal s/o Mr. Tara Ram Iddress Near Madrasa NH 15, krishi mandi road, barmer (raj.) 2. Mr. Narpat lal s/o Mr. Tara Ram Iddress ward no 16 gandhi nagar, barmer (Raj.) and Guarantors 1. Mr. pura ram s/o mr. tara ram S. Smt. Leela devi w/o pura ram Address-ward no 16 gandhi nagar, barmer (raj.) to repay the mount mentioned in notice being Rs. 13,15,259.00 (Rupees thirteen lakh fifteen thousand two jundred fifty nine only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

nundred firty fine only) within 60 days from the date of receipt or the said notice.
The borrowers having failed to pay the entire dues of the bank, notice is hereby given to the borrower,
the Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property
described here in below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said
act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002 on this 05th August 2022.
The borrower and the Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal
with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of
India, for the amount of Rs. 9,29,117.00 (Rupees Nine lakh twenty nine thousand one hundred
seventeen only and interest thereon w. e.f. 05.08.2022 plus other charges.

eventeen only) and interest thereon w.e.f. 05 08 2022 plus other charges he Borrower's /Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section (13) o ne Act. in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Description of the immovable property: nd parcel of the property consisting of the property situate

S. No. Detail of the Property . Property Mr. Pura ram s/o Mr. Tara ram and smt. Leela devi w/o mr. pura ram Residential property , ward no 16 mohalla Gandhi nagar , barmer (raj.) Pin 344001 Total area 1260 sq ft. Bounded: On the North by : 20 ft road, On the East by: encroachment (atikraman) of kishan, On the South by : encroachment (atikraman) of govind ji, On the West by : encroachment (atikraman) of farsa ram ji

Authorised Officer, Central Bank of India Date: 05.08.2022, Place: Jodhpur

RBLBANK

RBL BANK LTD.

RBLBANK Administrative Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur-416001
Regional Operating Center: 1st Floor, Building No 1, Modi Mills Compound, Okhla Industrial Estate, Phase 3, New Delhi 110020

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of RBL Bank Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor(s) to repay the amoun mentioned in the notice within 60 days from receipt of the said notice.

The borrower/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor(s)/Mortgagor and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of the RBL Bank Ltd. has taken PHYSICAL POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 9 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002.

- 1	SI. Io.	Co Domesses (Montages)	Details of Properties/ Address of Secured Assets to be Enforced	Amount Due in Rs.	Date of Notice Date of Possession			
ı	2	M/S Pure Apparels Pvt. Ltd. (Through its Directors/ Authorised signatories) C-220, Savtri Nagar, Near Masjid, New Delhi-110017 Also at: Property No. 29, First Floor, Greater Kailash, Part-4, NRI Complex Mandakni Enclave, Near Shivalik Apartment, New Delhi-110048 Mr. Sanjay Ahuja (Director- M/S Pure Apparels Pvt. Ltd.) C-220, Savtri Nagar, Near Masjid, New Delhi-110017 Mr. Amrit Lal Ahuja (Director- M/S Pure Apparels Pvt. Ltd.) C-220, Savtri Nagar, Near Masjid, New Delhi-110017	"Plot No. 29, First Floor, Plotted Housing At Mandakini	Rs. 1,96,95,130.78/- (Rupees One Crore Ninety Six Lacs Ninety Five Thousand One Hundred Thirty and paisa Seventy Eight only) as on 25.06.2021	28-06-2021 10-08-2022			
ſ	The Borrower/Mortgagor/Guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings							

with the property will be subject to the charge of the RBL Bank Ltd. **Authorised Officer** Place: New Delhi, Date: 10/08/2022 RBL Bank Ltd.

IN THE COURT OF THE XXX ADDL. CITY CIVIL JUDGE AT BENGALURU O.S. No.1886/2019 (CCH-31) BETWEEN: M/S RATHI SILKS AND SAREES, A registered partnership firm

Represented by its partner, Shrikisan Rathi, having its office at No.99/100, Textile market, 2nd Floor, Avenue Road, Bengaluru-560 002. -V/s-


M/S Saree Ghar. SUMMONS TO DEFENDANT BY WAY OF PAPER PUBLICATION UNDER ORDER 5 RULE 20

To, **M/s Saree Ghar,** Represented by its proprietor Mr. ARun Mehra, No. 9-C, Katra Rathi (1st Floor) Nai Sarak, Chandani Chowd, Delhi-110006. Whereas the above named plaintiff instituted a suit against you for recovery of money of Rs.3,90,742/- with interest from the date of the suit till realization. You are hereby summoned to appear before this court on **08-09-2022** at 11 am CCH-31 in person or through advocate pleader to answer the question to the

same, failing which the suit will be heard and determined as ex-parte. Given under my hand and seal of the court on 01-08-2022.

By order of the Court, Assistant Registrar, ity Civil Court, Banga

S.R. RAVISHANKAR, Advocate No.22/1/99, Gowrishankara Nilaya, 8th Cross, Orchard School Road, Vasanthapura Main Road Konanakunte Cross, Bengaluru-560062.



(₹ Crore unless stated otherwise)						
	STANDALONE Quarter ended Year ended					
	ooth tower	0.455 84	ooth towar	0.4% 84 1-		

	No.		Quarter ended Year en			Year ended
			30 th June, 2022	31 st March, 2022	30 th June, 2021	31 st March, 2022
ш			Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
	1	Total Income from Operations	24028.59	30758.10	20642.38	103473.32
	2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1038.30	3199.45	5144.89	16392.13
	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1038.30	3209.96	5144.89	16038.72
- 1	4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	776.33	2418.30	3850.02	12015.04
	5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period	804.40	2456.62	3825.73	11950.59
- 1		(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]				
	6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53
	7	Reserves excluding Revaluation Reserve				47886.61
	8	Securities Premium Account				235.10
	9	Net Worth				52017.14
	10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt				17284.10
- 1	11	Debt Equity Ratio				0.33
	12	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)				
		1. Basic (₹)	1.88	5.85	9.32	29.09
		2. Diluted (₹)	1.88	5.85	9.32	29.09
	13	Debenture Redemption Reserve				530.97
	14	Debt Service Coverage Ratio				1.53
	15	Interest Service Coverage Ratio (Number of times)				9.56

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022

	(< Crore unless stated otherwise)							
SI.	Particulars	CONSOLIDATED						
No.			Quarter ended		Year ended			
		30 th June,	31st March,	30 th June,	31st March,			
		2022	2022	2021	2022			
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	24028.62	30758.82	20643.02	103476.84			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1047.30	3268.46	5212.23	16645.28			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1047.30	3278.97	5212.23	16291.87			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	804.50	2478.82	3897.36	12243.47			
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period	911.95	2535.08	3893.45	12233.79			
l	(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]							
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53			
7	Reserves excluding Revaluation Reserve				50081.15			
8	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)							
	1. Basic (₹)	1.95	6.00	9.44	29.64			
l	2. Diluted (₹)	1.95	6.00	9.44	29.64			

SI. Particulars

1) The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10" August, 2022. 2) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30" June, 2022 filed with the Stock Exchanges under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investor Relations section on the Company's website www.sail.co.in

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi Date : 10th August, 2022

Buy SAIL SeQR TMT bar for a strong home at www.sailsteelonline.com स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED



(Anil Kumar Tulsiani)

Place: Kolkata

Dated: 10 August, 2022

@steelauthority Registered office: Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi 110 003 CIN: L27109DL1973GO1006454, Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in

केनरा बेंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate



Regional Office: Aligarh

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under the Securitisation Act and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice along with interest & expenses within 60 days from the date of receipt of the said notices. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said Rules. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrowers/	Description of	Date of Demand	Posse-	7111104111
Guarantors	Properties	notice	ssion	Due (₹)
W/o Shri Manoj Kumar Sharma, Co	as: East- Plot of Prashant Sharma, West- 20 Feet Wide	30-07-2021	06-08-2022	12,75,854.22 as on 30.07.2021 + interest & Other expenses
Borrower- M/s Moin Provision Store Through Prop- Moin Khan, Add Thakur Wali Gali Ke Samne Bhujpura Aligarh, Prop- Mr. Moin Khan S/o Natthu Khan, Add Mullapara Bhujpura Aligarh, Guarantor- 1. Mr. Mohd Azeem S/o Natthu Khan, Add 17/39 1 Islam Nagar Mullapada Bhujpura Koil Aligarh, 2. Mrs. Muveena Begum W/o Nathu Khan, Add Mullapara Bhujpura Aligarh	Mullapada Bhujpura, near Thakur vali gali, Pargana & Tehsil-Koil, Aligarh, Area- 515 Sq. yard, Property in the name of Muveena Begum W/o Nathu Khan, Bounded as:	19-04-2021	06-08-2022	21,92,272/- as on 19.04.2021 + interest & Other expenses
Aziz, 2. Shamaya W/o Mohd Qayyum, Add. Of Both- Hno. 27 Mahaveer Ganj Tehsil Koil Aigarh, 3. Mohd. Sajid S/o Aslam. Add Sunghat Teela Upper Coat		17-09-2019	06-08-2022	19,26,098.84 as on 17.09.2019 + interest & Other expenses
Date: 11-08-2022		Auth	orise	d Officer



Growing Legacies



Registered Office: CESC House, Chowringhee Square, Kolkata 700 001 CIN: L31901WB1978PLC031411

E-mail ID: secretarial@rpsg.in; Website: www.cesc.co.in

Tel: (033) 2225 6040; Fax: (033) 2225 5155

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

			(Rs. in crore)
Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
Total Income from operations (including other income)	4146	3242	12820
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	359	393	1916
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	359	393	1916
Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	297	280	1405
Total comprehensive income for the period	286	283	1394
Paid-up Equity Share Capital (Shares of Re. 1/- each)	133	133	133
Other Equity as per latest audited Balance Sheet as at 31 March 2022			10264
Earnings Per Share (EPS) (Rs.) (Face value of Re.1/- each)			
Basic & Diluted	2.16*	2.04*	10.25
* not annualised			

Notes:

Additional information on Standalone Financial Results : (Rs. in crore)								
Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)					
Total Income from operations (including other income)	2367	1945	7479					
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	173	175	1044					
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	173	175	1044					
Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	138	138	816					
Total comprehensive income for the period	134	130	801					
Paid-up Equity Share Capital (Shares of Re 1/- each)	133	133	133					
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	9901	9918	9822					
Securities Premium	Nil	Nil	Nil					
Net worth	10034	10051	9955					
Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	8115	7190	8370					
Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil					
Debt Equity Ratio	0.81	0.72	0.84					
Earnings Per Share (EPS) (Rs.) (Face value of Re 1/- each)								
Basic & Diluted	1.04*	1.04*	6.16					
* not annualised								
Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil					
Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil					
Debt Service Coverage Ratio	0.42	0.54	1.41					
Interest Service Coverage Ratio	2.87	2.97	3.50					

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended on 30 June 2022 filed with Stock Exchanges under Regulations 33, 52 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended on 30 June 2022 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.cesc.co.in).

By Order of the Board

Rabi Chowdhury Debasish Banerjee Managing Director Managing Director (Generation) (Distribution) (DIN: 06601588) (DIN: 06443204)

नियमन वैसा, सरकार चाहे जैसा नीतीश के हाथों में फिर से कमान,

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया की स्व-नियामकीय संस्थाओं को भी जीएसी के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया है

सौरभ लेले

•रकार ने सोशल मीडिया के लिए शिकायत अपील संबंधी समिति (जीएसी) बनाने की अपनी योजना पर कायम रहने का फैसला किया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि किसी भी इंटरमीडियरीज की स्व-नियामकीय संस्था को सरकार समर्थित जीएसी जैसे समान तंत्र पर काम करना होगा।

आईटी नियम, 2021 के मुताबिक 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मंच के लिए महत्त्वपर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की जरूरत होती है ताकि सामग्री से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जा सके है। इस साल जून में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जीएसी के गठन का प्रस्ताव रखा जो शिकायत अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अपना फैसला दे सकता है।

आईटी नियम में संशोधन पर सार्वजनिक परामर्श की बात पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के स्व-नियमन शिकायत निवारण के विचार के लिए तैयार थी क्योंकि कुछ एसएसएमआई ने जीएसी को लेकर चिंता जताई थी।

नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विदेशी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से मिली जानकारी पर काम कर रहा था।

उन्होंने कहा. 'स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) भारत के बाहर से काम करने वाली कुछ ही कंपनियों को कवर कर सकता है। अगर एसआरओ मॉडल लागू होता है, तब यह केवल कुछ सोशल मीडिया मंच के लिए ही लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) जीएससी मॉडल के साथ बना रह सकता है जिसका प्रस्ताव



सोशल मीडिया मंच के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की जरूरत

■ आईटी नियम, 2021 के मुताबिक मताबिक 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मंच के लिए एसएसएमआई की जरूरत होती है जो शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करता है

 लेकिन सरकार समर्थित जीएसी शिकायत अधिकारियों के फैसले के खिलाफ निर्णय दे सकती है

 कई शिकायत अपील संबंधी समिति का होगा प्रावधान जो इंटरमीडियरीज के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपील पर अपनी सक्रियता दिखाएंगी

मंत्रालय ने दिया था।

अधिकारी ने कहा, 'अब केवल सरकार समर्थित जीएसी ही होगा कोई एसआरओ नहीं होगा। अब केवल यही दो विकल्प हैं। अब तक हमने अपने प्रस्ताव दे दिए हैं और हम इन प्रस्तावों पर

चंद्रशेखर ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कई शिकायत अपील संबंधी समिति होंगी जो इंटरमीडियरीज के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपील पर अपनी सक्रियता दिखाएंगी।

सरकारी अधिकारी ने कहा कि जीएसी की तरह ही समान मॉडल

एसआरओ का गठन होना चाहिए। ऐसे में कुछ कंपनियों के लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से जीएसी बना जाएगा। उन्होंने कहा, 'निश्चित तौर पर कानुनी रूप से किसी भी इंटरमीडियरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के पास समान विकल्प

मौजुद होंगे।'

नए फैसले से नागरिक समाज समूहों में काफी सतर्कता देखी जा रही है। कट्स इंटरनैशनल में निदेशक (शोध) अमोल कलकर्णी का कहना है कि एसआरओ और सरकार समर्थित जीएसी मॉडल के बीच संतलन बनाने की जरूरत है। हालांकि उनके मृताबिक यह अस्थायी व्यवस्था हो सकती है जब तक कि सरकार नए आईटी कानून लेकर नहीं आती।

कुलकर्णी ने कहा, 'हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग खुद के बारे फैसला सुनाने वाला न बने और ठीक इसी तरह सरकार भी उद्योग के ऊपर नियंत्रक की तरह अपना एजेंडा नहीं आगे बढ़ा रही है।'

उन्होंने कहा, 'एसआरओ में अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना होगा मसलन इसमें विश्वसनीय उपभोक्ता समहों. विषय विशेषज्ञों. स्वतंत्र रूप से तथ्यों की जांच करने वाले आदि भी शामिल हों ताकि यह पक्षपाती न हो।'

पीएम की दावेदारी से झाड़ा पल्ला

आदिति फडणीस

बिहार में नीतीश कुमार ने बुधवार को आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के 45 सदस्य हैं। नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हाथ छोड राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का हाथ थामा है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, '2014 में जो (सत्ता में) आए, 2024 के आगे रह पाएंगे या नहीं वह अपना समझें। मैं चाहता हूं कि विपक्ष 2024 के लिए एकजुटता दिखाए।' अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद के लिए एक और उम्मीदवार हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे किसी भी पद (प्रधानमंत्री) के लिए कोई दावेदार नहीं हूं।' यह पूछे जाने पर कि क्या वे देश में अब विपक्ष की राजनीति को मजबृत करेंगे तब नीतीश ने कहा कि प्रे तौर पर करेंगे । उन्होंने कहा, 'एक बार पहले भी हमने ऐसा किया था। हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर पुरी तरह से मजबूत हों और सभी लोग आगे के लिये सब कुछ करें। कुछ लोगों को लगता है विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हमलोग भी अब विपक्ष में आ

राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण किया। इससे पहले भी राजद-जदयू की सरकार के कार्यकाल के दौरान तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के नाम की घोषणा अभी होनी है। नीतीश और तेजस्वी ने शपथ के बाद कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया।

भाकपा (माले) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, 'हमने नई बिहार सरकार को बाहर से समर्थन देते हुए एक न्युनतम साझा कार्यक्रम की मांग की है।'

तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, 'आपलोगों की वजह से तेजस्वी को यह पद मिला है। पहले की बातें भल जाएं।



शपथ ग्रहण के बाद नीतीश से गले मिलते तेजस्वी यादव

फोटो-पीटीआई

ब्धवार को शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा को आमंत्रित नहीं किया गया था। मोदी को इस बात की भी आशंका है कि गठबंधन की यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा. 'मुलतः तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार इस सरकार का प्रमुख चेहरा भर हैं। राजद के पास 80 सीटें हैं और जदयू के पास 45-46 सीटें हैं। सबको पता है कि लालू प्रसाद कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ दिखाने के लिए मुख्यमंत्री हैं, वास्तव में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हैं।' सुशील मोदी ने कहा कि यह मतदाताओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा. 'वर्ष 2020 में हमें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला। हमने गठबंधन के लिए उत्साह

जनादेश नरेंद्र मोदी के लिए था।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ऑयल 2जी एथनॉल रिफाइनरी का उद्घाटन करते हुए सीधे तौर पर अपने सहयोगी दल रहे जदय पर निशाना साधने के बजाय कांग्रेस पर निशाना साधा और

देखा था जब नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-4

रैलियों को संबोधित कर रहे थे। 2020 में

तेजस्वी यादव बने उपमुख्यमंत्री

 नीतीश ने भाजपा का हाथ छोड राजद का हाथ थामा

 बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं

 राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली

कटाक्ष करते हुए कहा कि काले जाद में भरोसा करने वाले. कभी फिर से जनता का भरोसा नहीं जीत पाएंगे।

मोदी ने महंगाई के विरोध में 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा, 'कुछ लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनने से उनकी निराशा और नकारात्मकता दूर हो सकती है, लेकिन वे नहीं जानते कि चाहे वे ऐसी किसी भी रणनीति का सहारा लें. लेकिन लोगों का विश्वास दोबारा नहीं

तीसरी खुराक के लिए कॉर्बेवैक्स को मंजूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बायोलॉजिकल ई (बीई) के कोविड-19 टीका कॉर्बेवैक्स को तीसरे टीके के रूप में मंजुरी दे दी है जिसे वयस्क कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दो खराक लेने के बाद ले सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि यह पहला मिश्रित खुराक वाला (हेटेरोलोगस) टीका होगा जिसकी मंजूरी भारत में दी गई है।

अब तक भारत में तीसरी खुराक में समान तरह के टीके (होमोलोगस) का इस्तेमाल किया ज रहा था। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने बूस्टर खुराक के लिए फाइजर और मॉडर्ना द्वारा तैयार किए जा रहे एमआरएनए टीके के मिश्रण की मंजरी दी है।

बुधवार को सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि कॉर्बेवैक्स को बुस्टर खुराक या तीसरी खुराक के तौर पर मंजूरी मिली है जिसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दो खुराक के बाद लिया जा सकता है। कोविशील्ड कोविड-19 टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है जबिक कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। भारत में पहली बार मिश्रित टीके की अनुमति दी गई है। सुत्रों का कहना है कि सभी वयस्कों में कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दो खुराक लेने के छह महीने बाद कॉर्बेवैक्स का इस्तेमाल बुस्टर खुराक के तौर पर किया जा सकता है। एक हफ्ते के भीतर ही कोविन पोर्टल में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

हाल के हफ्ते में बायोलॉजिकल ई के द्वारा जमा किए गए डेटा की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने सिफारिशें कीं जिसके बाद इसके लिए मंजूरी दी भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने 3 जून को हेटेरोलोगस ब्रस्टर खुराक के तौर पर कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी है।

डीसीजीआई की मंजरी के बाद कंपनी ने जन में कहा, 'हाल ही में बीई ने अपने क्लिनिकल परीक्षण डेटा डीसीजीआई के पास जमा किया है। जिसने विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) के साथ व्यापक आकलन के बाद हेटेरोलोगस बूस्टर



नई खुराक से उम्मीदें

- कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दो खुराक के छह महीने बाद तीसरी खुराक के तौर पर कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी गई है
- 🛮 डीसीजीआई ने कॉर्बेवैक्स को हेटेरोलोगस बुस्टर खुराक के तौर पर 4 जून को मंजूरी दे दी हैं
- एनटीएजीआई तीसरी खुराक के तौर पर दिए जाने वाले कॉर्बेवैक्स टीके की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया से जुड़े डेटा की समीक्षा कर रहा है
- बीई ने 416 विषयों पर तीसरे चरण का परीक्षण कराया है जो बूस्टर के तौर पर कॉर्बेवैक्स का मिश्रित परीक्षण है

खराक के तौर पर कॉबेवैंक्स टीके को मंजरी दे दी है। लेकिन यह टीका उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीके की दो खुराक ले ली है।'

कंपनी ने डीसीजीआई से मंजुरी पाने के बाद जुन में कहा था, 'बीई के क्लिनिकल परीक्षण डेटा यह दर्शाते हैं कि कॉर्बेवैक्स बूस्टर खुराक ने प्रतिरोधक क्षमता में बेहतर सधार देखा है और बेहतर सुरक्षा के लिए प्रभावी बूस्टर खुराक की जरूरत होगी।' बीई ने 18 से 80 साल के उम्र के करीब 416 लोगों में तीसरे चरण की प्रायोगिक दवाओं वाले नियंत्रित हेटेरोलोगस बस्टर खराक का क्लिनिकल परीक्षण कराया था जिन्हें कम से कम छह महीने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दो खराक दी गई थी।

कंपनी ने दावा किया कि कॉर्बेवैक्स की बूस्टर खुराक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन समूह में ऐंटीबॉडी को निष्प्रभावी करना शुरू कर दिया था। इसमें कहा गया कि बस्टर खराक दिए जाने के बाद तीन महीने के फॉलोअप में कोई विपरीत प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली।

इस क्लिनिकल परीक्षण में कोरोनावायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से बचाव के लिए एंटीबॉडी को निष्प्रभावी करने से जुडा आकलन किया गया जिसमें यह बात सामने आई कि कॉर्बेवैक्स बूस्टर खुराक ने ओमीक्रोन स्वरूप से बचाव में एंटीबॉडी के असर को कम किया। बीई ने जुन में कहा, 'कॉर्बेवैक्स के बस्टर खराक के बाद ओमीक्रोन में एंटीबॉडी को बेअसर करने की प्रक्रिया करीब 91 फीसदी से 75 फीसदी लोगों में देखी गई जिन्हें पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीके दिए गए थे।' उनका कहना है कि कॉर्बेवैक्स बुस्टर ख़ुराक ने कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई है।

एनटीएजीआई भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की दो खराक के बाद टीके की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े डेटा की समीक्षा कर रहा है। देश के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 12-14 साल के बच्चों के लिए भी कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी गई है और करीब 6.85 करोड खराक किशोरों को दिए गए हैं।

बीई ने जून महीने तक केंद्र को करीब 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति की है। कंपनी ने उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी योजना को साझा करने से इनकार कर दिया है।

अमत महोत्सव



30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम का सार

豖.	विवरण	एकल				
सं.			समाप्त तिमाही			
		30 जून,	31 मार्च,	30 जून,	31 मार्च,	
		2022	2022	2021	2022	
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अं के क्षित	
1	प्रचालनो से कुल आय	24028.59	30758.10	20642.38	103473.32	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	1038.30	3199.45	5144.89	16392.13	
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	1038.30	3209.96	5144.89	16038.72	
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	776.33	2418.30	3850.02	12015.04	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय /(हानि) (इसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	804.40	2456.62	3825.73	11950.59	
	एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है)					
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 / – प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53	
7	आरक्षित पूर्ण मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर				47886.61	
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता				235.10	
9	शुद्ध मूल्य				52017.14	
10	चुकता ऋण पूंजी / बकाया ऋण				17284.10	
11	ऋण इक्विटी अनुपात				0.33	
12	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 / – प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)					
	1. मूलभूत (₹)	1.88	5.85	9.32	29.09	
	2. डाइल्यूटेड (₹)	1.88	5.85	9.32	29.09	
13	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व				530.97	
14	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात				1.53	
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (संख्या)				9.56	

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम का सार

(₹ करोड में जब तक कछ और न बताया जाये)

Ι.	(१ मर्सप् । अन् राम कुठ आर । नरामा आम्)							
	豖.	विवरण		समेकित				
	सं.			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
			30 जून,	31 मार्च,	30 जून,	31 मार्च,		
			2022	2022	2021	2022		
			अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित		
	1	प्रचालनो से कुल आय	24028.62	30758.82	20643.02	103476.84		
	2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवादात्मक मदों के पूर्व)	1047.30	3268.46	5212.23	16645.28		
	3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)(अपवादात्मक मदों के पश्चात)	1047.30	3278.97	5212.23	16291.87		
	4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	804.50	2478.82	3897.36	12243.47		
	5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (इसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	911.95	2535.08	3893.45	12233.79		
		एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है)						
	6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 / — प्रत्येक)	4130.53	4130.53	4130.53	4130.53		
	7	आरक्षित पूर्ण मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर				50081.15		
	8	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 ∕ — प्रत्येक) (वार्षिकी नहीं)						
		1. मूलभूत (₹)	1.95	6.00	9.44	29.64		
		2. डाइल्यूटेड (₹)	1.95	6.00	9.44	29.64		
	_		•					

2 . उपरोक्त 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है, जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप एनएसई और बीसई की स्टॉक एक्सचेंज वेबसईटो क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की

APPOINTMENTS



यूनियन बैंक 🕼 Union Bank www.unionbankofindia.co.in

सार्वजनिक सूचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीटीएस समाशोधन में ₹5 लाख (पाँच लाख) एवं उससे अधिक के चेक भुगतान हेतु दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से पॉज़िटिव पे पुष्टिकरण अनिवार्य कर देगा. ग्राहक को जारी किए गए चेक के आदाता का नाम, राशि, दिनांक एवं चेक संख्या जैसे विवरणों की पुन: पुष्टी करनी होगी.

ग्राहक विभिन्न माध्यमों यथा नेट बैंकिंग /मोबाइल / एसएमएस / शाखा बैंकिंग आदि के द्वारा इस स्विधा का लाभ उठा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए हमारी वैबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाएं एवं पॉज़िटिव पे लिंक पर क्लिक करें अथवा शाखा से संपर्क करे.

रथान: मुंबई दिनांक: 10.08.2022

मख्य महाप्रबंधक (परिचालन विभाग)

आजादीक अंमृत महोत्सव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 10 अगस्त, 2022

वेबसाइट www.sail.co.in पर निवेश संबंध अनुभाग के अंतरगर्त उपलब्ध है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

1. इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गयी है और 10 अगस्त, 2022 को आयोजित संबंधित बैठकों मैं निदेशक मंडल द्वारा स्वकृत किये गए हैं।

@SAILsteelofficial @SAILsteel

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अनिल कुमार तुल्सीआनी)

@steelauthority Registered office: Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi 110 003 CIN: L27109DL1973GO1006454, Tel: +91 11-24367481, Fax: +91-11 24367015, E-mail: investor.relation@sail.in, Website: www.sail.co.in